

May 08, 2020

The Secretary Bombay Stock Exchange Limited

Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

The Secretary National Stock Exchange of India Ltd

Exchange Plaza 5th Floor, Plot no C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051.

Subject: <u>Newspaper publication - Statement of Consolidated and Standalone</u> <u>Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2020</u>

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Statement of Consolidated and Standalone Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2020" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For NIIT Technologies Limited

Lalit Kumar Sharma

Company Secretary & Legal Counsel

Encl: as above

Public transport may resume soon: Gadkari

MEGHA MANCHANDA New Delhi, 6 May

itin Gadkari, Union minister for road transport & highways, on Wednesday assured bus and car operators that the government was aware of their problems and that services would resume soon.

Addressing members of Bus and Car Operators Confederation of India through videoconferencing, Gadkari said, opening of transport and highways would go a long way in instilling confidence in the public. He said public transport might open soon with some guidelines.

However, he stressed that social distance had to be maintained and safety measures like hand wash, sanitizing, face masks should be adopted while operating buses and cars.

Gadkari added that the ministry was looking at adopting the London model of public transport, where government funding is minimal and private investment is promoted.

He said the poor standards of Indian bus and truck bodies meant that they worked for only 5-7 years, India.

whereas European models lasted up to 15 years.

Experts feel that as public transport resumes after the lockdown ends, it will be important for transporters to get ready for the "new normal" and clearly communicate to the stakeholders the implications of it.

"For example, to address health concerns in mass transit, what type of health and safety initiatives have been taken, whether it is in the form of sanitizing vehicles, training staff to monitor health of passengers, adopting new technology to integrate health and travel records or provisioning social distancing principles in public transportation," said Mohammad Athar, partner infrastructure and urban transport at PwC

Gadkari said he was aware of the tight financial condition of the Indian market. The minister said it was a good opportunity to tap global demand, which might be looking to exit China. He urged Indian industry to grasp the opportunity to invite those foreign companies to invest in



Gadkari pointed out the poor quality of Indian buses and trucks. He said they are functional for only 5-7 years, whereas the European models last for up to 15 years

INDIA UPDATES

Maharashtra records 1,233 new cases and 34 deaths. Mumbai cases cross 10,000-mark with 769 new additions. Death toll rises by 25 to 412

Number of cases in the national Capital rose to 5,104. Death toll stands at 64. Delhi Police registers first Covid-19 death

Govt bans exports of alcohol-based hand sanitizers

■ Bengal reports 112 new cases in 24 hours; total active cases now 1,047. State allows home delivery of liquor

30 BSF jawans test positive for coronavirus in Jodhpur. 85 fresh cases in BSF; maximum in Delhi unit deployed in Jamia area

All shops except those providing milk and medicines in Ahmedabad to remain shut from 12 am on 7th May to 6 am on 15th May

> All Tablighi members who are named and needed in the investigation in Markaz incident to be sent to Delhi Police custody: Delhi govt

No new positive cases in Kerala

Covid-19 has infected 548 doctors. nurses, paramedics across India so far

Odd-even formula for essential shops

in Maharashtra's Aurangabad

Number of cases in Gujarat rises to 6,625 and fatalities to 396. Congress blames 'Namaste Trump' event for Covid-19 spread in Gujarat

OPENING TRANSPORT

AND HIGHWAYS WILL

INSTIL CONFIDENCE

AMONG THE PUBLIC.

THEY WILL BE TOLD TO MAINTAIN

SOCIAL DISTANCING

SAFETY MEASURES"

AND ADOPT ALL

NITIN GADKARI, UNION MINISTER

Health ministry launches Aarogya Setu **IVRS** facility for those without smartphones

ICMR approves 21 institutions for participating in clinical trials of plasma therapy

Bombay HC seeks govt reply on plea to prohibit newspaper delivery

AIR INDIA'S REPATRIATION FLIGHTS DELAYED BY A DAY; FIRST DEPARTURE TONIGHT

Air India pilots and cabin crew have to undergo Covid-19 tests before being cleared to operate

evacuation flights. This has now led to a slight delay in operations. "Only those crew and staff who have tested negative will be allowed to operate these flights," the home ministry said. The first departure from Delhi to Singapore is now planned on Thursday night. The first flight from Mumbai to London is expected to take off on Friday morning, according to the revised schedule. Air India Express will operate two flights to Abu Dhabi and Dubai on Thursday. These flights will be operated from Kochi and Kozhikode, respectively. The airline will also operate one flight from Kannur to Dubai next week. The national carrier on Wednesday opened booking for its special flights to the US, UK and Singapore to enable NRIs and stranded citizens to return. On the return leg, the airline will fly Indians stranded in these countries. ANEESH PHADNIS

INDIA TO SEND NEARLY 1K **TONNES OF PARACETAMOL** RAW MATERIAL TO EUROPE

India will supply Europe with about 1,000 tonnes of the active pharmaceutical ingredient (API) for

common pain reliever paracetamol, a top exports body said, easing export controls on over-the counter medicines used to cope with Covid-19 symptoms. The Indian government in March put a hold on exports of several drugs including paracetamol to secure supplies for its people after the coronavirus outbreak disrupted the industry's supply chain globally. Covid-19 is the respiratory disease caused by the novel coronavirus. Europe has sought up to 800 tonnes of paracetamol APIs every month, said Dinesh Dua, chairman of the Pharmexcil. "We have been under immense pressure from the EU for the last 10 days," Dua said.

INDIA TO SEND NEARLY 1,000 TONNES OF PARACETAMOL RAW MATERIAL TO EUROPE

India will supply Europe with about 1,000 tonnes of the active pharmaceutical ingredient (API) for common pain reliever paracetamol, a top exports body said, easing export controls on over-the counter medicines used to cope with Covid-19 symptoms. The Indian government in March put a hold on exports of several drugs including paracetamol to secure supplies for its people after the coronavirus outbreak disrupted the industry's supply chain globally. Covid-19 is the respiratory disease caused by the novel coronavirus. Europe has sought up to 800 tonnes of paracetamol APIs every month, said Dinesh Dua, chairman of the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (Pharmexcil). "We have been under immense pressure from the European Union for the last10 days," Dua said.

WORLD UPDATES



ITALY OPENS, WITH CAUTION: A worker monitors data from a thermal camera checking the temperatures of commuters passing through Cadorna Station in Italy. Experts in Italy, which has begun easing restrictions, warned lawmakers that a new surge of virus

- China considers dropping numerical GDP growth target for 2020
- China asks Pompeo to show 'enormous evidence' of Covid-19 originating from

Wuhan lab

- The death toll in the US continues to surge with **70,847 deaths and 1,201,337** cases. The US continues to lead worldwide cases and deaths from the virus
- US now in next stage of battle. has flattened curve: Trump

Trump admin officials ignored

- Covid-19 warnings, alleges fired American scientist White House plans to disband virus
- task force
- Scientists release app to track Covid-19 symptoms, inform users about hot spots in the US
- Chinese researcher on 'verge of making very significant' coronavirus findings killed in US

investing in equity, arbitrage and debt. The details are as under

to the extent of payout and statutory levy if any.

Declaration of Dividend under Monthly Dividend Option of Kotak Equity Savings Fund

Amazon worker at New York warehouse dies of Covid-19

- France coronavirus death toll
- crosses **25.500**
- UK death toll rises to 30,076. UK to set out plans to ease lockdown on Sunday: PM Johnson
- Russia's culture minister tests **positive** for coronavirus
- Russia reports 10,500 new Covid-19 cases; Putin warns against hurrying to lift coronavirus restrictions
 - Nepal extends lockdown till May 18, suspends cross-border movement until May 31
- Pakistan reports record 40 deaths in a day, cases jump to 22,413
- UN chief: Disabled among hardest hit by virus
- Coronavirus hits Walt Disney with \$1.4-billion profit cuts. Shanghai amusement park to reopen on May 11
- Iran warns of 'rising trend' as virus cases top 100,00
- Spain's daily deaths rise to above 200 after three days

Face Value

per unit

Rs. 10.00

For Kotak Mahindra Asset Management Company Limited

Investment Manager - Kotak Mahindra Mutual Fund

Karnataka goes all out to hold onto migrants

Announces ₹3,000 each for construction workers as part of the overall ₹1,600-crore package


SAMREEN AHMAD Bengaluru, 6 May

Hours after cancelling all trains transporting migrant workers to their home states, the Karnataka government on Wednesday announced a ₹1,630-crore Covid-19 relief package, which included financial assistance of ₹3.000 each to construction workers. This will be made available to 1.58 million registered building workers in the state, the government said.

"This is over and above the ₹2,000 that is already being transferred to their accounts," said Chief Minister BS Yediyurappa in a tweet on Wednesday.

When asked if this amount would be enough for migrant labourers to sustain if factories do not resume work soon, state Labour Minister Shivaram Hebbar said all permissions were in place for manufacturing units to resume work.

relief measures for farmers, flowergrowers, washermen, autorickshaw and taxi drivers, MSMEs, large industries, weavers, and barbers



Criticism for the state's decision to cancel trains, allegedly under pressure from the construction industry, came from various quarters

whose incomes have been hurt because of the nation wide lockdown. Each of them will receive a one-

time assistance of ₹5,000, and this is expected to benefitabout 775,000 auto and taxi drivers, 60,000 washermen Flower growers who have lost demand for their produce will also get compensation of₹25,000 perhectare.

The state has also decided to

launch a new scheme "Nekarara Sammana Yojane" under which it will $deposit \ref{eq:continuous} 2,000\, directly into the \, bank$ accounts of handloom weavers. This is likely to benefit 54,000 handloom weavers in the state, it said.

decided to waive monthly fixed charges of electricity bills for two months. "Tosupportlarge industries, we have decided that payment of fixed

industries will be deferred without penalty and interest for a period of two months," said Yediyurappa. Criticism for the state's decision to

charges in the electricity bills of large

cancel trains, allegedly under the pressure of the construction industry, came from various quarters. Former chief minister and Leader of the Opposition in the Karnataka Assembly, Siddaramaiah, questioned ifbondedlabourwas still being practiced in the state.

"The decision... to cancel trains for migrants is not just inhuman butalso violation of fundamental rights," Siddaramaiah said. "Had the interests of labourers been taken care of by the concerned stakeholders, migrants may have stayed back. Even the government did little to address their concerns,"he tweeted.

In Bihar, Leader of the Opposition Tejashwi Yadav, too, criticised the disregardingtheirhumanrightsand them as bonded labourers/slaves will

technologies

NIIT Technologies Limited

Regd. Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravidass Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. **Ph**: 91 (11) 41029297, **Fax**: 91 (11) 26414900

Email: investors@niit-tech.com: Website: http://www.niit-tech.com

Statement of Consolidated and Standalone Results for the Quarter and Year ended 31st March 2020

(Rs. In Million)

		Standalone				Consolidated				
	Particulars	3 Months	Preceding	Corresponding	Year	3 Months	Preceding	Corresponding	Year	
		ended 31.03.2020	Quarter ended 31.12.2019	Quarter ended 31.03.2019	ended 31.03.2020	ended 31.03.2020		Quarter ended 31.03.2019	ended 31.03.2020	
1.	Total income from operations	5,581	5,906	5,478	22,310	11,093	10,734	9,722	41,839	
2.	Net profit for the period (before Tax, Exceptional items)	1,251	1,572	860	4,873	1,718	1,621	1,451	6,025	
3.	Net profit for the period before tax (after Exceptional items)	1,251	1,572	860	4,873	1,590	1,621	1,395	5,954	
4.	Net profit for the period after tax	1,174	1,351	634	4,225	1,242	1,285	1,099	4,676	
5.	Total comprehensive Income for the period	1,029	1,204	723	3,874	1,181	1,542	1,188	4,777	
6.	Equity share capital	625	625	618	625	625	625	618	625	
7.	Other Equity	(*)			19,126	(=)			23,340	
8.	Earnings Per Share (after exceptional items) of Rs.10/- each) (not annualized):									
1	1. Basic	18.79	21.64	10.27	67.93	18.18	19.75	17.07	71.39	
l	2. Diluted	18.77	21.58	10.17	67.53	18.16	19.69	16.91	70.97	

NAV as on May 05, 2020

Rs. 10.5743

Nilesh Shah

aging Directo

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity http://www.niit-

The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee at the meeting held on May 4, 2020 and approved by the Board of Directors at their meeting held on May5, 2020

The outbreak of Coronavirus (COVID-19) pandemic globally is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. In many countries, businesses are being forced to cease or limit their operations for long or indefinite period of time. Measures taken to contain the spread of the virus, including travel bans, quarantines, social distancing, and closures of non-essential services have triggered significant disruptions to businesses worldwide, resulting in an economic slowdown and uncertainties pertaining to future operations. The Company's operations have been impacted in certain sectors, consequent to which, the Company has considered the possible effects that may result from COVID 19 on the carrying amount of receivables, unbilled revenue, goodwill and intangible assets. In developing the assumption relating to the possible future uncertainties in the global conditions because of the pandemic, the Company, as on date of approval of these financial statements has used various information, as available. The Company has performed sensitivity analysis on the assumptions used and based on current estimates expects the carrying amount of these assets will be recovered.

As at the balance sheet date, the Company has recorded impairment on accounts receivable and Goodwill amounting to Rs 88 Mn and Rs 40Mn respectively and disclosed the same as an exceptional item during the quarter ended March 31, 2020.

The impact of COVID 19 may differ from that estimated as at the date of approval of these financial statements . The Board in its meeting held on December 23, 2019 and the shareholders by way of postal ballot by means of a special resolution through postal ballot on February 13, 2020, has approved buy-back of up to 19,56,290 fully paid equity shares of a face value of Rs. 10/- each at a price of up to INR 1,725 per share aggregating up to INR 337,46,00,250 which represents 20.23% of the paid-up equity share capital and free reserves of the Company. The Buyback is proposed to be made from the shareholders of the Company as on March 12, 2020, Record Date on a proportionate basis under the Tender Offer route through Stock Exchange mechanism in accordance with the provisions of the SEBI (Buyback of Securities) Regulations, 2018 read with SEBI Circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and the SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016. Due to the COVID-19 nationwide lockdown, the Company sought an extension from SEBI for dispatching the letter of offer and tender form. SEBI has provided an extension

for dispatching the letter of offer and tender form within 15 days from the end of the 'lockdown' as announced by the Government. The Board of Directors at its meeting held on May 5, 2020 has declared an interim dividend of Rs. 11 (Rupees Eleven) per equity share and including this the Company has declared Rs. 31 (Rupees Thirty One) per equity share as interim dividend for this financial year

> For NIIT Technologies Limited Sudhir Singh CEO & Executive Director DIN: 07080613

By order of the Board

May 06, 2020

NOTICE

Name of the Scheme

Kotak Equity Savings Fund - Regular

Plan - Monthly Dividend Option

Any queries / clarifications in this regard may be addressed to:

Notice is hereby given that Kotak Mahindra Trustee Company Limited; the Trustee to Kotak Mahindra Mutual Fund has approved

Pursuant to payment of dividend, the NAVs of the Dividend Option of the Scheme would fall

All Unit Holders / Beneficial Owners of the Monthly Dividend Option of the scheme, whose names appear in the records of the

Registrar, Computer Age Management Services Pvt. Ltd. / Depositories as on May 12, 2020 will be eligible to receive the dividend

declaration of dividend under the Regular Plan of Monthly Dividend Option of the Kotak Equity Savings Fund, an open ended scl

Quantum of dividend

Re. 0.0786

per unit #

Distribution of the above dividend is subject to the availability and adequacy of distributable surplus

Note: The Payment of Dividend will be subject to deduction of applicable statutory Levy.

Kotak Mahindra Asset Management Company Limited CIN: U65991MH1994PLC080009 (Investment Manager for Kotak Mahindra Mutual Fund) oth Floor, Kotak Towers, Building No. 21, Infinity Park, Off: Western Express Highway. Goregaon - Mulund Link Road. Malad (Eas

Mumbai 400097. Phone Number: 022 - 66056825 • Email: mutual@kotak.com • Website: assetmanagement.kotak.com Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully,

Place: New Jersey, USA

Record Date

May 12, 2020

Date: May 05, 2020

Karnataka CM, asking him to not basicempathy. "Anymovetotreat not be tolerated at all," he said.

CIN: L65993DL1992PLC048753

एचयूएल के 26,000 करोड़ रु. के शेयर बेचेगी जीएसके

समी मोडक और श्रीपाद ऑटे मुंबई, 6 मई

क्सोस्मिथक्लाइन गुरुवार को एफएमसीजी कंपनी हिंदस्तान यनिलीवर के 26,000 करोड रुपये के शेयरों की बिकवाली करेगी। कुल इक्विटी हिस्सेदारी का 5.7 फीसदी हिस्सा यानी 13.3 करोड शेयरों की बिक्री 1.850 रुपये से 1,950 रुपये के बीच स्पेशल ब्लॉक विंडो के जरिए होगी। बुधवार को एचयूएल का शेयर एनएसई पर 1.9 फीसदी की गिरावट के साथ 2,002 रुपये पर बंद हुआ। पिछले पखवाडे कंपनी का शेयर 16 फीसदी तक टूट गया था क्योंकि शेयर बिक्री के अलावा आय के मोर्चे पर निराशा देखने को मिली थी। उस अवधि में बेंचमार्क निफ्टी स्थिर रहा था।

कीमत दायरे के ऊपरी स्तर पर जीएसके इस शेयर बिक्री से 26.085 करोड़ रुपये हासिल करेगी जबकि निचले स्तर पर यह 24,748 करोड रुपये बैठता है। जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी और मॉर्गन स्टैनली इस शेयर बिक्री में निवेश बैंकर की भिमका में हैं।

यह लेनदेन देसी बाजार में सबसे बड़ी द्वितीयक शेयर बिक्री है और इस तरह से यह दायची सैंक्यो की तरफ से साल 2015 में सन फार्मा की 3.2 अरब डॉलर के शेयरों की बिक्री के पार निकल जाएगी। तब जापानी दवा कंपनी ने पूरी 8.9 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी थी, जो उसे रैनबैक्सी और सन फार्मा के विलय के बाद

दायची की तरह जीएसके की तरफ से एचयूएल की हिस्सेदारी बिक्री उसे एचयूएल और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर के बीच हए विलय से मिले शेयरों की हो रही है। दोनों ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीच सौदे का ऐलान पिछले साल हुआ था, जो पिछले महीने पूरा हुआ। इसके बाद यूनिलीवर की एचयूएल में हिस्सेदारी 67.2 फीसदी से घटकर 61.9 फीसदी रह जाएगी जबकि जीएसके को विलय वाली इकाई की 5.7 फीसदी हिस्सेदारी



मिली है। शेयरों की बडी बिक्री ऐसे समय में हो रही है जब कोरोनावायरस महामारी के कारण बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। करीब 40 फीसदी टूटने के बाद बेंचमार्क स्चकांकों में अप्रैल में तेज सुधार देखने को

एचयूएल का शेयर हालांकि मार्च में बिकवाली के दौरान बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। हालांकि हालिया हफ्तों में शेयर ने बाजार के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है।

ज्यादातर विश्लेषकों ने एचयूएल के मार्च तिमाही के आंकड़ों पर निराशा जताई थी, जिसका ऐलान पिछले हफ्ते हुआ। कमजोर प्रदर्शन की वजह लॉकडाउन के कारण आपूर्ति शृंखला में अवरोध रही। विशेषज्ञों का हालांकि मानना है कि मध्यम से लंबी अवधि में कंपनी की आय का परिदृश्य स्थिर बना हुआ है।

एचयूएल के शेयर को सुरक्षित ठिकाना माना जाता है क्योंकि कंपनी के पास कर्ज मुक्त बैलेंस शीट, उच्च नकदी, मजबूत नकदी सुजन की क्षमता और मजबत ब्रांड की ताकत है।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि एचयूएल को कमजोर कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी का फायदा मिलेगा। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 85 फीसदी से ज्यादा है, जो समकक्ष कंपनियों में सबसे ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों के मुताबिक, अगले दो साल यह और बढ़कर 105 फीसदी पर पहुंचेगा। जीएसके के साथ सौदा भी आय के लिहाज से बेहतर रहेगा। एचयुएल का शेयर हालांकि अपनी 12 महीने की पिछली आय के 70 गुने पर कारोबार कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, एचयूएल के शेयर का 12 महीने का कीमत लक्ष्य 2,290 रुपये है। दो दर्जन विश्लेषकों ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है जबकि 15 ने इसमें निवेश बनाए रखने को कहा है और तीन ने उसे बेचने की सलाह दी है।

निफ्टी शेयरों का लक्ष्य 15 फीसदी घटा

विश्लेषकों ने की लक्षित कीमतों में करौती

875.5

815.1

जश कुपलानी मुंबई, 6 मई

ब्लुचिप शेयरों की लक्षित कीमतों में भारी कटौती देखने को मिली है और निफ्टी-50 की आधी कंपनियों के शेयरों के कीमत लक्ष्य में 15 फीसदी से ज्यादा की कटौती की गई है। कुल मिलाकर इंडेक्स में शामिल शेयरों की लक्षित कीमतों में विश्लेषकों ने 2 से 60 फीसदी तक की कटौती की है और ब्रोकिंग हाउस कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बीच आय पर जोखिम मानकर चल रहे हैं।

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, बैंक शेयरों की लक्षित कीमतों में सबसे तेज कटौती हुई है, यानी उनमें 16 से 60 फीसदी की कटौती देखी गई है। इन शेयरों में इंडसइंड बैंक के शेयर की लक्षित कीमत साल की शुरुआत के 1,624 रुपये से घटाकर 624 रुपये कर दी गई है, जो 61 फीसदी की कटौती दर्शाता है।

ऐक्सिस बैंक के शेयर कीमत लक्ष्य में 34 फीसदी की कटौती हुई है जबकि भारतीय स्टेट बैंक के शेयर की लक्षित कीमत में 20 फीसदी की कटौती की गई है।

टाटा म्युचुअल फंड के वरिष्ठ फंड मैनेजर सोनम उदासी ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों के प्रॉक्सी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि मौजूदा माहौल ने बैंकों की क्रेडिट की रफ्तार और परिसंपत्ति गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा दी है, जो संभवत: दबाव के घेरे में आ रहा है।

इक्विनॉमिक्स रिसर्च ऐंड एडवाइजरी के संस्थापक जी चोकालिंगम ने कहा, कुछ तिमाही के बाद कुछ क्षेत्र सामान्य स्थिति में लौटेगा, वहीं विमानन, रियल्टी और बैंकिंग में सुधारे मं वक्त लगेगा और उसकी समयसीमा वित्त वर्ष

१ जनवरी, हालिया लक्ष्य बदलाव मौजूदा (रुपये में) 2020को (फीसदी) बाजार भाव (रुपये में) (रुपये में) लक्ष्य (रुपये) इंडसइंड बैंक 624.0 -61.6 428 1624.3 ज़ी एंटरटेनमेंट 376.7 195.4 -48.1 153.1 टाटा मोटर्स 107.1 186.4 -42.6 83.7 ओएनजीसी 186.8 115.7 -38.1 79.25 ऐक्सिस बैंक 838.6 549.5 -34.5 393 वेदांत 171.8 124.5 -27.5 79.3 आईटीसी 321.1 233.0 -27.4 164.95 बजाज फाइनैंस 4343.6 3220.3 -25.9 2112 लार्सन ऐंड दुब्रो 1247 8 1674.4 -25.5 839 मारुति सुजूकी 7163.6 5637.6 -21.3 4841.95

693.2

645.5

स्रोत : ब्लूमबर्ग

2021 के पार भी जा सकती है।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज

टेक महिंद्रा

बैंकों के अलावा वाहन कंपनियों के शेयर कीमत लक्ष्य में भी तेज कटौती हुई है। टाटा मोटर्स के शेयर का 12 महीने का कीामत लक्ष्य साल की शुरुात के मुकाबले 42.5 फीसदी नीचे समायोजित किया गया है। मारुति सुजूकी के लक्षित कीमत में 21 फीसदी की कमी की गई है। वाहन क्षेत्र की

अन्य फर्मों के शेयर कीमत लक्ष्य

में 12 से 26 फीसदी की कटौती

देखने को मिली है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, वाहन क्षेत्र पहले ही कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है क्योंकि बीएस-6 और दोपहिया के बीमा कवर के कारण लागत में इजाफा मांग पर असर डाल रहा है। कोविड-19 के प्रसार के बाद मांग और आपूर्ति शृंखला में अवरोध खड़ा हुआ है। निफ्टी में शामिल

एनबीएफसी के शेयर कीमत लक्ष्य में कटौती 10 से 25 फीसदी के दायरे में रही है। बजाज फाइनैंस के लक्ष्य में सबसे ज्यादा कटौती की गई है और मौजदा माहौल में विश्लेषक कंपनी की असुरक्षित उपभोक्ता लोनबुक में दबाव देख रहे हैं। उसकी मूल कंपनी बजाज फिनसर्व के लक्ष्य में 12.3 फीसदी की कटौती की गई है जबकि एचडीएफसी के कीमत लक्ष्य में 11 फीसदी की कटौती हुई है। पिछले कुछ महीने से संकट में रहने के बाद एनबीएफसी को कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक मामले दर मामले के आधार पर इस क्षेत्र में भुगतान की मोहलत

में इजाफा कर संकता है। पीएसयू में कीमत संशोधन अपेक्षाकृत कम रहा है। निफ्टी में शामिल सात पीएसयू में से पांच की कीमत लक्ष्य में 6 से 15 फीसदी की कटौती हुई है। ओएनजीसी में सबसे ज्यादा 38 फीसदी की कटौती हुई है। उसके अलावा इंडियन ऑयल में 21.24 फीसदी की कटौती हुई है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि आगामी दिनों में कुछ और पीएसयू के कीमत लक्ष्य में तेज कटौती हो सकती है।

508

-20.8

-20.8

चोकालिंगम ने कहा, पीएसयू यूटिलिटीज के कीमत लक्ष्य में कमी हो सकती है क्योंकि उनके साथ प्राप्तियों का कुछ संकट है और कोरोना के कारण उनका परिचालन काफी कम क्षमता के साथ हो रहा है।

इस बीच, निफ्टी में शामिल दवा कंपनियों के शेयर लक्ष्य में बढ़ोतरी हुई है। ब्रोकरेज फर्मों ने डॉ. रेड्डीज लैब की लक्षित कीमत 26 फीसदी बढाकर 3.657 रुपये कर दी है. वहीं सन फार्मा के लक्ष्य में मामूली बढोतरी की गई है जबकि सिप्ला के लक्ष्य में सात फीसदी की बढोतरी हुई है।

हिस्सेदारी बिक्री की चिंता से आईटीसी के शेयर में गिरावट

आईटीसी के शेयर में बुधवार को उन खबरों के बाद 6 प्रतिशत गिरावट देखने को मिली, जिनमें कहा गया था कि सरकार अपनी पूरी 7.9 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाए जाने की खबरों से भी शेयर पर दबाव देखने को मिला। आईटीसी का शेयर बुधवार को 5.8 प्रतिशत गिर कर बीएसई पर 163.8 रुपये पर बंद हुआ। ऐक्सिस बैंक का शेयर भी 5.4 प्रतिशत गिर गया लेकिन बाद में संभलकर आखिर में महज 0.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। खबरों में कहा गया है कि ऐक्सिस बैंक में सरकार की 4.7 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बेचे जाने की योजना है। हालांकि सरकारी सूत्रों ने एक समाचार चैनल को बताया कि तुरंत हिस्सेदारी बिक्री की कोई योजना नहीं है।

आईआईएफएल के उपाध्यक्ष (शोध) अभिमन्यु सोफत ने कहा, 'बाजार ने सरकारी हिस्सेदारी बिक्री से जुड़ी खबरों को काफी गंभीरता से लिया है। निवेशक इसे लेकर काफी चिंतित थे कि कंपनी का बड़ा हिस्सा बेच दिया जाएगा।' आईटीसी और ऐक्सिस बैंक में सूटी के जरिये केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। आईटीसी में सूटी हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 16,000 करोड रुपये है, जबिक ऐक्सिस में यह 5,200 करोड़ रुपये है। सरकार ने ये पूरी हिस्सेदारियां बेचने की योजना बनाई है। 2016 में केंद्र ने इस तरह की शेयर बिक्री के परामर्श एवं संचालन के लिए निवेश बैंकरों को

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जहां इस शेयर बिक्री से सिर्फ अस्थायी दबाव पैदा हो सकता है, वहीं आईटीसी के लिए बडी चिंता कर संरचना में बदलाव और कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुई व्यावसायिक अनिश्चितता से जुड़ी है। उन्होंने कहा, 'बाजार इसे लेकर चिंतित है कि कर कमाने के लिए सरकार शराब पर अपना नियंत्रण बढाने के बाद तंबाकृ उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।' उन्होंने कहा, 'आईटीसी के कारखानों में श्रमिक किल्लत को लेकर भी चिंताएं बरकरार हैं।' सोफट ने कहा, 'सिगरेट व्यवसाय के लिए बिक्री में गिरावट आई है और एफएमसीजी व्यवसाय भी अब पहले जितना फायदेमंद नहीं रह गया है। जब कंपनी अपना एफएमसीजी व्यवसाय बढ़ाने में सफल रहेगी, तो उसके राजस्व में भी योगदान बढ़ेगा।'

रेटिंग व्यवधान से लगेगा झटका : एजेंसियां

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने बाजार नियामक सेबी से कहा है कि

कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बीच मोरेटोरियम यानी कर्ज भुगतान के लिए मोहलत दिए जाने से रेटिंग प्रक्रिया में हुए व्यवधान का वित्तीय बाजारों पर असर पड सकता है।

सुत्रों ने कहा कि सेबी ने पिछले हफ्ते क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के आला अधिकारियों की बैठक पिछले हफ्ते बुलाई थी, जो आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने और क्रेडिट गुणवत्ता के परिदृश्य पर अद्यतन जानकारी पाने के लिए हुई थी।



यह बैठक एनबीएफसी की तरफ से जारी 2.5 लाख करोड रुपये के ऋणपत्रों की परिपक्वता से पहले बुलाई गई थी। इन प्रतिभृतियों का बडा हिस्सा लॉकडाउन के कारण हए नकदी व कहा कि सेबी और रेटिंग एजेंसियों चुनौतियों की सामना कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि रेटिंग एजेंसियों

की कवायद के बारे में जानकारी दी जो आरबीआई के मोरेटोरियम के दायरे में नहीं है और उन पर तत्काल कदम उठाए जाना था। सेबी खास तौर से इन प्रतिभूतियों को लेकर चिंतित है क्योंकि इनमें म्युचुअल फंडों का खासा निवेश है, जिसका वह विनियमन करता है। पिछले महीने आरबीआई ने म्युचुअल फंडों को 50,000 करोड रुपये की अतिरिक्त नकदी की सुविधा मुहैया कराई थी। सूत्रों ने मोहलत में बढ़ोतरी की संभावना

पर भी विचार किया। रेटिंग फर्मों

वाणिज्यिक प्रतिभृतियों पर रेटिंग

ने सेबी को वैसे कॉरपोरेट बॉन्ड व ने कहा कि रेटिंग की कवायद को टालने से बैंकिंग व्यवस्था पर जोखिम देखने को मिलेगा। रेटिंग एजेंसियों ने देनदारों की

श्रेणियों को रेखांकित किया. जो कर्ज भुगतान में चुक में सबसे ज्यादा बढोतरी कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा, खदरा देनदार और छोटे कारोबारों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। रेटिंग फर्मों ने एक अध्ययन का

हवाला देते हुए कहा कि एसएमई क्षेत्र में फंसे कर्ज में बढोतरी हुई है। खुदरा देनदारों के लिए बेरोजगारी, छंटनी और वेतन कटौती तरफ से चूक दोगुनी हो सकती है। चुका पा रही हैं।

रेटिंग फर्मों ने वित्तीय क्षेत्र पर दबाव को भी रेखांकित किया। एक सुत्र ने कहा, रियल एस्टेट डेवलपर नकदी की बडी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण फंसे कर्ज में और बढोतरी हो सकती है क्रिडिट रेटिंग एजेंसियों ने कुछ निश्चित कर्ज पर सॉवरिन गारंटी के स्थायित्व का मसला उठाया और यह भी कहा कि क्या उधार देने के लिए निजी लेनदारों की खातिर पर्याप्त गारंटी उपलब्ध है। सेबी ने रेटिंग फर्मों के लिए दिशानिर्देश जारी किया था और उनसे कहा था भुगतान संकट से पुनर्भुगतान की ने कर्ज भुगतान की तीन महीने की अगर अर्थव्यवस्था मंदी की ओर का तमगा न दे जो मौजूदा राष्ट्रव्यापी फिसलती है तो खुदरा देनदारों की लॉकडाउन के कारण बकाया नहीं

एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

CIN: L65993DL1992PLC048753

पंजी. कार्यालय: 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019. फोन: 91 (11) 41029297, फैक्स: 91 (11) 26414900

वेबसाइट: http://www.niit-tech.com; ई-मेल: investors@niit-tech.com

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु समेकित एवं पृथक्कृत परिणामों का विवरण

(रू. मिलियन में)

		पृथक्कृत				समेकित				
	विवरण	तिमाही	पूर्ववर्ती तिमाही	संगत तिमाही	वर्ष	तिमाही	पूर्ववर्ती तिमाही	संगत तिमाही	वर्ष	
		समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	
		31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2020	31.12.2019	31.03.2019	31.03.2020	
1.	परिचालन से कुल आय	5,581	5,906	5,478	22,310	11,093	10,734	9,722	41,839	
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ	1,251	1,572	860	4,873	1,718	1,621	1,451	6,025	
	(कर, अपवाद मदों से पहले)									
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर से पहले	1,251	1,572	860	4,873	1,590	1,621	1,395	5,954	
	(अपवाद मर्दों के बाद)									
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ कर पश्चात	1,174	1,351	634	4,225	1,242	1,285	1,099	4,676	
5.	अवधि हेतु कुल सम्मिलित आय	1,029	1,204	723	3,874	1,181	1,542	1,188	4,777	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	625	625	618	625	625	625	618	625	
7.	अन्य इक्विटी	-	-		19,126	-	-	-	23,340	
8.	प्रति शेयर अर्जन (अपवाद मदों के बाद)									
	(रू. 10/— प्रत्येक का) (वार्षिककृत नहीं)									
	1. मूल	18.79	21.64	10.27	67.93	18.18	19.75	17.07	71.39	
	2. तनुकृत	18.77	21.58	10.17	67.53	18.16	19.69	16.91	70.97	
नोटर	नोटम :									

(i) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्ज(जों) की वेबसाइट्स तथा सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइटhttp://www.niit-tech.com पर उपलब्ध है।

(ii) उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा 04 मई, 2020 को आयोजित बैठक में पुनरीक्षित एंव अनुशंसित किए गए थे और निदेशक मंडल द्वारा 05 मई, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे ।

(iii) वैश्विक महामारी कोरोनावायरस (कोविङ–19) का प्रकोप दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियों में भारी अव्यवस्था और मंदी पैदा कर रहा है। कई देशों में, व्यवसायिक परिचालन लम्बे समय तक अथवा अनिश्चित समयाविध तक बंद या सीमित रहने को मजबूर हो रहे हैं। वायरस का प्रसार रोकने के लिए किए गए उपायों, जिनमें यात्र पाबंदियां, एकान्तवास, सामाजिक दूरी तथा गैर–जरूरी सेवाओं को बंद किया जाना शामिल है, से दुनिया भर में व्यवसायों में भारी अव्यस्था पैदा हो गई है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक मंदी और भावी परिचालन संबंधी अनिश्चितताओं ने जन्म लिया है। कम्पनी के परिचालन में कुछ सेक्टर प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप, कम्पनी ने प्राप्यों, बिल नहीं की गई आय की राशि, साख और अप्रत्यक्ष आस्तियों पर कोविड—19 के फलस्वरूप संभावित प्रभावों पर विचार किया है। वैश्विक महामारी के कारण वैश्विक हालात में संभावित भावी अनिश्चिताओं के संबंध में धारणा विकसित करने में, कम्पनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि को विभिन्न उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग किया है। कम्पनी ने प्रयुक्त धारणाओं के विषय में संवेदनशीलता विश्लेषण किया है और चालू अनुमानों के आधार पर आशा करती है कि इन आस्तियों की वहन राशि पुनः हासिल की जा सकेगी।

तुलनपत्र की तिथि को, कम्पनी ने प्राप्य और साख खाते में क्रमानुसार रू. 88 मिलियन तथा रू. 40 मिलियन की क्षति दर्ज की है और उसको 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान अपवाद मद के रूप में प्रकट किया है। कोविड—19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि को उक्त अनुमानित राशि से भिन्न हो सकता है।

(v) बोर्ड ने 23 दिसम्बर, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में और शेयरधारकों ने 13 फरवरी, 2020 को डाक मतदान के माध्यम से विशेष प्रस्ताव के साधनों के जरिये डाक मतदान द्वारा, रू. 10 🖊 प्रत्येक के अंकित मल्य के 19.56.290 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के पुनरक्रय का अनुमोदन किया है, जिनका कुल मुल्य भारतीय रूपए 337.46.00.250 है तथा जो कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और मुक्त संचय का 20.23 प्रतिशत है। उक्त पुनरक्रय कम्पनी के शेयरधारकों से 12 मार्च, 2020, रेकार्ड तिथि, को आनुपातिक आधार पर टेन्डर ऑफर रूट के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज के माध्यम से तथा सेबी (प्रतिभृतियों का पुनरक्रय) विनयमावनली, 2018 के साथ पठित सेबी सर्कुलर सीआईआर/सीएफडी/नीति प्रकोष्ट/2015 दिनांकित 13 अप्रैल, 2015 और सेबी सर्कुलर सीएफडी/डीसीआर2/सीआईआर/पी/2016/131 दिनांकित 9 दिसम्बर, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। कोविड–19 राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, कम्पनी ने ऑफर का लेटर और टेन्डर फार्म प्रेषण के लिए सेबी से समय विस्तार की मांग की है। सेबी ने ऑफर का लेटर और टेन्डर फार्म प्रेषण के लिए, सरकार द्वारा 'लॉकडाउन' समाप्ति की घोषणा से 15 दिन के भीतर करने हेतू समय विस्तार प्रदान किया है।

(y) निदेशक मंडल ने 5 मई, 2020 को आयोजित इसकी बैठक में रू. 11 (रूपए ग्यारह) प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है और इसके समेत कम्पनी इस वित्तीय वर्ष के लिए रू. 31 (रूपए इकतीस) प्रति इक्विटी शेयर बतौर अंतरिम लाभांश की घोषणा कर चुकी है।

बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते एनआईआईटी टेक्नोलोजिज लिमिटेड सुधीर सिंह

DIN: 07080613

बाजार में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत तिथि : 05 मई, 2020 पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के शेयरों में स्थान : न्यू जर्सी, यूएसए

एंट्री लेवल पर फर्मों का दाव

पृष्ठ 1 का शेष...

चीन के वाहन बाजार में इस समय जो रुझान दिख रहा है, उसके अनुसार लोग एक दूसरे से कम से संपर्क रखने के लिए निजी कार वाहन खरीदने को वरीयता दे रहे हैं। हंडई इंडिया में सहायक उपाध्यक्ष, यूनिट सेल्स हेड, विकास जैन कहते हैं,'जो लोग पहले कैब साझा किया करते थे वे अब सार्वजनिक परिवहन से दूरी बरतेंगे और कार खरीदेंगे। लोगों की नजर में ऐसा करना अब उनके लिए जरूरत बन गई है। हालांकि यह भी दिमाग में रखना होगा कि कार खरीदते समय लोग कीमतों पर जरूर ध्यान रखेंगे।'

विश्लेषकों का कहना है कि व्यावसायिक और महंगे वाहनों पर कोविड-19 का असर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहेगा। इस बारे में दौलत कैपिटल के विश्लेषकों ने कहा, '2डब्ल्यूज, एंट्री लेवर कार, टायर और बैटरियों की मांग में वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में तेजी

मारुति सुजूकी ने मंगलवार को अपने 3,100 डीलरशिप में 600 की शुरुआत कर दी। कंपनी ने एक सर्वेक्षण में पाया है कि ग्राहक स्वास्थ्य कारणों से शोरूम जाकर और कार खरीदने से परहेज कर रहे हैं। अब कंपनी ग्राहकों को डिजिटल माध्यम से कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। श्रीवास्तव कहते हैं, 'किसी शोरूम में करीब 28 ऐसी जगहें होती हैं, जहां से ग्राहकों को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। हम डिजिटल पहल कर इन्हें समाप्त कर रहे हैं। आगे चलकर कंपनी के कारोबार में डिजिटल माध्यम की हिस्सेदारी भी काफी अहम हो जाएगी।

पिछले 12 से 18 महीनों में भारत में वाहन क्षेत्र को काफी मुश्किलों से गुजरना पडा है। ढांचागत बदलाव और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), कैब साझा करने के चलन, बीएस-4 से बीएस-6 प्रणाली के आगमन और नकदी की किल्लत आदि कारणों से वाहन उद्योग पर दबाव बढ़ा है। डेलॉयट के एक शोध के अनुसार वाहन क्षेत्र में सुधार आने में समय लगेगा और 2021-22 तक यह पटरी पर लौट पाएगा।

उत्पाद शुल्क वृद्धि से फिसलेगी ओएमसी की आमदनी

शाइन जैकब और उज्जवल जौहरी

नई दिल्ली, 6 मई

पेट्रोल और डीजल पर शुल्क बढ़ाने और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को खुदरा दामों में बढ़ोतरी करने की अनुमति न देने के सरकार के फैसले से तेल विपणन कंपनियों के विपणन मार्जिन में लगभग 64 प्रतिशत तक की कमी आएगी।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि इन दोनों ईंधनों पर सकल विपणन मार्जिन लगभग सात रुपये प्रति लीटर रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियों ने पेट्रोलियम के वैश्विक दामों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया है। एक वक्त पर तो यह सकल विपणन मार्जिन 19 रुपये के ऊंचे स्तर पर था। विपणन मार्जिन में यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब मजबूत विपणन मार्जिन उनकी कमाई का एकमात्र बढिया आधार था। कोविड-19 के परिणामस्वरूप हुए लॉकडाउन के कारण मांग में गिरावट और खुदरा बिक्री की मात्रा में भारी कमी से रिफाइनिंग मार्जिन में लगातार नरमी बनी रही है। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 21 के लिए तेल विपणन कंपनियों की आय के अनुमानों में 10 से 27 प्रतिशत तक की कटौती की है। सरकार के इस कदम से बुधवार को शेयर 5.68 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।